

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेहतर घरेलू मांग की मदद कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, चीन ने अप्रैल में 3.33 मिलियन टन एल्युमीनियम का उत्पादन किया, जो मार्च के 3.37 मिलियन टन से कम है, लेकिन एक साल पहले की तुलना में यह 0.8% अधिक है।
- इंटरनेशनल लेड और जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक जिंक बाजार में सरप्लस मार्च में 26,700 टन तक बढ़ गया, जबकि वैश्विक लेड बाजार घाटा बढ़कर 21,000 टन हो गया।
- सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 24 के दौरान उर्वरक पर कुल सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इसमें वित्त वर्ष-24 के खरीफ सीजन के लिए 1.08-लाख करोड़ शामिल हैं।
- चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार चीन ने पहली तिमाही में 746,692 टन

रिफाइंड तांबे का आया किया, जो साल-दर-साल 12.6% कम है और कम से कम 2015 के बाद से पहली तिमाही में सबसे कम आयात है।

- भारतीय मौस विभाग के अनुसार, केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगमन में सामान्य तिथि की तुलना में थोड़ी देर होने की संभावना है। केरल में मॉनसून की शुरुआत 4 दिनों की मॉडल त्रुटि के साथ 4 जून को होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून की भविष्यवाणी की है, जिसमें लंबी अवधि के औसत का 96% बारिश होने की संभावना है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस वर्ष वैश्विक स्तर पर तेल मांग के अपने पूर्वानुमान को 200,000 बैरल प्रति दिन बढ़ाकर रिकॉर्ड 102 मिलियन बैरल प्रति दिन कर दिया है।
- भारत ने अप्रैल में लगभग 1.9 मिलियन बैरल प्रति दिनरूसी तेल का आयात किया, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 4.4% अधिक है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह देश की कुल खरीद का लगभग दो/पांचवां हिस्सा है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	12.05.23	18.05.23	बदलाव (%)
स्त्रील	45920.00	48110.00	4.77%
हल्दी	7836.00	8092.00	3.27%
बाजरा	2153.00	2186.00	1.53%
धान	4331.00	4351.00	0.46%
कैस्टरसीड	5836.00	5857.00	0.36%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	12.05.23	18.05.23	बदलाव (%)
सीसेमसीड	16025.00	14855.00	-7.30%
जीरा	47110.00	45090.00	-4.29%
गुड़	1459.00	1402.50	-3.87%
धनिया	6822.00	6586.00	-3.46%
कॉटनसीडऑयलकेक	2710.00	2618.00	-3.39%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	12.05.23	18.05.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	203.50	223.50	9.83%
कच्चा तेल	5805.00	5957.00	2.62%
एल्युमीनियम	205.40	208.00	1.27%
मेंथाऑयल	962.60	969.10	0.68%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	12.05.23	18.05.23	बदलाव (%)
निकल	1939.20	1836.30	-5.31%
सोना	61312.00	60063.00	-2.04%
सोना एम	61031.00	59931.00	-1.80%
सोना पेटल	6117.00	6017.00	-1.63%
सोना गिनी	49020.00	48259.00	-1.55%

## साप्ताहिक समीक्षा

चार सप्ताह की लगातार गिरावट के बाद सीआरबी इंडेक्स की गिरावट पर रोक लग गई। बुलियन की कीमतों में पिछले सप्ताह की गिरावट जारी रही क्योंकि डॉलर इंडेक्स में सुरक्षित निवेश के लिए खरीद में बढ़ोतरी हुई। दो सप्ताह में पहली बार सोने की कीमतें 2,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे आ गई, क्योंकि फेडरल रिजर्व के तेजतर्रार संकेतों और अमेरिकी ऋण डिफॉल्ट के भय के कम होने के बाद कारोबारी सोने में मुनाफा वसूली की। कच्चे तेल की कीमतों ने 70 डॉलर के पास सपोर्ट लिया है और मामूली बढ़त दर्ज की और एमसीएक्स में भी कच्चे तेल ने इसी रुझान का पालन किया। नेचुरल गैस की कीमतें भी सपोर्ट ले रही थी और छोटे कदमों के साथ बढ़त दर्ज कर रही थी। तेल की मांग को लेकर सकारात्मक उम्मीदों के कारण तेल की कीमतें स्थिर हुई और अमेरिकी ऋण सीमा वार्ता के कारण प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के बारे में चिंताएं दूर हो गईं। ऊर्जा सूचना प्रशासन द्वारा रिपोर्ट किए गए 12 मई को समाप्त सप्ताह में कच्चे तेल के भंडार 5 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई है। लेकिन गैसोलीन के स्टॉक में 1.4 मिलियन बैरल की गिरावट हुई क्योंकि गैसोलीन की मांग दिसंबर 2021 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। एक महीने के लंबे गतिरोध के बाद, डेमोक्रेटिक अध्यक्ष और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मंगलवार को सीधे बातचीत के लिए राजी हो गए। 1 जून तक संघीय सरकार के बिलों का भुगतान करने के लिए धन समाप्त होने से पहले कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा एक समझौते पर पहुंचने और पारित करने की आवश्यकता है। 2023 में कम मूल्य निर्धारण के माहौल के कारण, उत्पादकों द्वारा डिलिंग कम करने की उम्मीद है, और हाल के सप्ताह में रखरखाव के कारण उत्पादन की मात्रा कम हो गई है जिससे नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल दर्ज की गई। 5 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमिगत भंडारों में संग्रहीत कुल गैस 2.141 ट्रिलियन क्यूबिक फीट थी। यह एक साल पहले के 1.632 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के स्तर से 31.2% अधिक और पांच साल के औसत 1.809 टीसीएफ से 18.4% अधिक थी। एल्युमीनियम को छोड़कर बेस मेटल की कीमतों में गिरावट हुई। चीन से उम्मीद से कमजोर आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ इस साल अमेरिकी मंदी की बढ़ती आशंकाओं के कारण तांबे में बिकवाली की एक नई लहर दर्ज की गई। अप्रैल में चीन का औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री वृद्धि पूर्वानुमानों से कम रही है जिससे संकेत मिलता है कि दूसरी तिमाही की शुरुआत में अर्थव्यवस्था की गति में कमी आई है।

कृषि कमोडिटीज में, अरंडी की कीमतों में अधिक गिरावट हुई। तुर्की और सीरिया से आपूर्ति बढ़ने के कारण जीरा की कीमतें लगभग 49300 के उच्च स्तर से गिरकर 44000 पर आ गईं। तुर्की और सीरिया कम कीमत पर जीरे की पेशकश कर रहे हैं। हल्दी की कीमतों ने अपने साप्ताहिक लाभ में से कुछ को गवां दिया लेकिन बढ़त के साथ बंद हुई। मानसून में देरी के पूर्वानुमान के बीच कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण कीमतों में गिरावट सीमित रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून की शुरुआत में तीन दिन की देरी का अनुमान लगाया है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून, जो आम तौर पर 1 जून को केरल में दस्तक देता है, के 4 जून को आने की संभावना है। किसानों के पास बीजों के भारी स्टॉक के बीच स्थानीय बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण ग्वार कीमतों पर दबाव रहा।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	12.05.2023	18.05.2023	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	2,151.00	2,083.35	-3.15%
चना	दिल्ली	5,108.05	5,067.85	-0.79%
धनिया	कोटा	6,751.00	6,707.40	-0.65%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	889.70	852.25	-4.21%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,447.00	1,393.00	-3.73%
ग्वारसीड	जोधपुर	5,744.65	5,573.95	-2.97%
ग्वारगम	जोधपुर	11,680.10	11,183.90	-4.25%
जीरा	ऊझा	48,425.60	46,756.20	-3.45%
सरसों	जयपुर	5,204.95	5,176.05	-0.56%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	967.50	915.00	-5.43%
सोयाबीन	इंदौर	5,469.35	5,360.75	-1.99%
हल्दी	निजामाबाद	7,229.95	7,636.15	5.62%
गेहूं	दिल्ली	2,330.75	2,396.35	2.81%
कॉटन	कड़ी	29,042.45	28,588.30	-1.56%
कॉटनऑयलसीडकेक अकोला		2,797.85	2,741.85	-2.00%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	12.05.2023	18.05.2023	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2231.50	2283.50	2.33%
तांबा	LME	नकद	8253.00	8172.50	-0.98%
लेड	LME	नकद	2076.00	2055.50	-0.99%
निकल	LME	नकद	22217.00	20934.00	-5.77%
जिंक	LME	नकद	2549.00	2459.00	-3.53%
सोना	COMEX	जून	2019.80	1959.80	-2.97%
चांदी	COMEX	जुलाई	24.15	23.63	-2.16%
लाइट क्रूड	NYMEX	जून	70.04	71.86	2.60%
नेचुरल गैस	NYMEX	जून	2.27	2.59	14.39%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	12.05.2023	18.05.2023	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	1,435.00	1,333.25	-7.09%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	49.89	47.29	-5.21%
कॉटन	ICE	जुलाई	80.53	86.66	7.61%
सीपीओ	BMD	अगस्त	3,648.00	3,392.00	-7.02%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	11.05.2023 क्वांटिटी	18.05.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	550	50	-500
कैस्टर सीड	मी.टन	5976	7818	1842
चना	मी.टन	6706	8092	1386
धनिया	मी.टन	15495	19009	3514
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	15848	16723	875
ग्वारगम	मी.टन	22783	21826	-957
ग्वारसीड	मी.टन	123	114	-9
जीरा	मी.टन	6789	7173	384
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉग	मी.टन	1554	632	-922
हल्दी	मी.टन	955	995	40

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	12.05.2023 क्वांटिटी	18.05.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	51	51	0
तांबा	मी.टन	360430	620575	260145
सोना	किग्रा	325	325	0
सोना मिनी	किग्रा	2840	2840	0
सोना गिनी	किग्रा	46600	46600	0
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	151461	153299	1838
चांदी एम	किग्रा	40567	40567	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 12.05.2023	स्टॉक की स्थिति 18.05.2023	अंतर
एल्युमीनियम	568200	556550	-11650.00
तांबा	76875	90525	13650.00
निकल	39294	39174	-120.00
लेड	32900	33925	1025.00
जिंक	49050	47525	-1525.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जून	44710.00	14.03.23	तेजी	32000.00	43070.00	-	43000.00
NCDEX	हल्दी	जून	8282.00	06.04.23	तेजी	7035.00	7830.00	-	7800.00
NCDEX	ग्वारसीड	जून	5566.00	29.03.23	मंदी	5650.00	-	5880.00	5900.00
NCDEX	कैस्टरसीड	जून	5831.00	26.04.23	मंदी	6120.00	-	6170.00	6200.00
NCDEX	स्टील लांग	जून	46810.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	47350.00	47400.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जून	2641.00	11.04.23	मंदी	2800.00	-	2770.00	2800.00
MCX	मेंथा ऑयल	मई	952.80	14.03.23	मंदी	1015.00	-	987.00	990.00
MCX	बुलडेक्स	जून	16138.00	11.05.23	मंदी	16600.00	-	16770.00	16800.00
MCX	चांदी	जुलाई	72143.00	11.05.23	मंदी	75000.00	-	76650.00	77000.00
MCX	सोना	जून	59723.00	11.05.23	मंदी	61200.00	-	61500.00	61550.00
MCX	मेटलडेक्स	जून	16428.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	16000.00	17600.00	-
MCX	तांबा	मई	718.50	19.04.23	मंदी	775.00	-	761.00	762.00
MCX	लेड	मई	183.60	20.04.23	साइडवेज	185.00	180.00	190.00	-
MCX	जिंक	मई	223.20	19.04.23	मंदी	252.00	-	241.00	242.00
MCX	एल्युमिनियम	मई	208.85	25.04.23	मंदी	210.00	-	216.00	217.00
MCX	कच्चा तेल	जून	5957.00	19.04.23	मंदी	6500.00	-	6520.00	6550.00
MCX	नेचुरल गैस	जून	223.40	17.05.23	तेजी	210.00	202.00	-	200.00

\*18/05/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### जिंक मिनी ( मई ) एमसीएक्स



### जिंक मिनी ( मई ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 263.00

निचला स्तर: 223.00

एमसीएक्स में जिंक मिनी ( मई ) कॉन्ट्रैक्ट 15 मई 2023 को 223.50 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 234.03 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 31.36 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

238.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 210.00 रु के टारगेट के लिए 230.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### हल्दी ( जून ) एनसीडीईएक्स



### हल्दी ( जून ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 8700.00

निचला स्तर: 6606.00

एनसीडीईएक्स में हल्दी ( जून ) कॉन्ट्रैक्ट 15 मई 2023 को 8282.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 7768.88 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 63.62 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

8700.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 7800.00 रु के टारगेट के लिए 8400.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### नेचुरल गैस मिनी ( जून ) एमसीएक्स



### नेचुरल गैस मिनी ( जून ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 249.80

निचला स्तर: 179.00

एमसीएक्स में नेचुरल गैस मिनी ( जून ) कॉन्ट्रैक्ट 18 मई 2023 को 223.40 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 206.90 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 63.78 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

200.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 255.00 रु के टारगेट के लिए 215.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

हल्दी (जून) वायदा की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। बाजार मुनाफावसूली की स्थिति में हैं क्योंकि हाल ही में कीमतों में बढ़त के बाद आपूर्ति बढ़ रही है। बेहतर कीमतों की प्राप्ति के कारण महाराष्ट्र में आवक बढ़ने लगी है जिससे कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। लेकिन कमजोर उत्पादन संभावनाओं के कारण गिरावट सीमित रहेगी। जुलाई-अगस्त 23 के दौरान अलनीनो की बढ़ती संभावनाओं को लेकर चिंता से भी कीमतों में मजबूती को समर्थन मिलने की संभावना है। वर्ष 2022-23 में हल्दी का उत्पादन पहले से ही 7% -10% कम है और मौसम की चिंताओं के कारण आगामी सीजन में अधिक गिरावट होने की संभावना है। हल्दी का रकबा अन्य खरीफ फसलों की ओर स्थानांतरित हो सकता है जिससे उत्पादन में गिरावट आएगी। हल्दी की कीमतों के 7800-8600 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

जीरा (जून) वायदा की कीमतों में अस्थिरता रहने की संभावना है क्योंकि मौसमी आपूर्ति में वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर कुछ मुनाफावसूली दरखी जा सकती है। सस्ती दर पर जीरे के बढ़ते आयात से भी बाजार का सेंटीमेंट कमजोर हो रहा है। छोटे व्यापारी गुजरात और राजस्थान में जीरे की मौसमी आपूर्ति में वृद्धि की संभावना से थोक खरीद से परहेज कर रहे हैं। कीमतों में बढ़ती के कारण निर्यात मांग में भी कमी आई है। कम कैरीओवर स्टॉक और बाजार में सामान्य से कम आवक के कारण प्रमुख रुझान अभी भी तेज है। राजस्थान और गुजरात में हाल ही में हुई बारिश के बाद नई फसल की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। जीरा वायदा की कीमतों के 41000-49000 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति में वृद्धि के कारण धनिया वायदा (जून) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। पूरे भारत में धनिया का कुल उत्पादन 8%-10% बढ़ने का अनुमान है जो आने वाले हफ्तों में आपूर्ति को पर्याप्त बनाए रखेगा। लेकिन गिरावट सीमित होने की संभावना है क्योंकि कीमतें कई साल के निचले स्तर पर चल रही हैं और स्टॉकिस्ट गिरावट पर खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। धनिया (जून) वायदा की कीमतें 6300-7000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### अन्य कमोडिटीज

हाजिर बाजार में आपूर्ति कम होने से कपास की कीमतों के तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। जुलाई-अगस्त में घटती आवक और मौसम की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंता के साथ अलनीनो की घटना की बढ़ती संभावनाओं से कीमतों की मजबूती को समर्थन मिलने की संभावना है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022-23 सीजन के लिए कपास उत्पादन के अनुमान को 465,000 गांठ घटाकर 29.8 मिलियन गांठ कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा में उत्पादन घटने की उम्मीद है। कपास उत्पादन का नवीनतम अनुमान 2008-09 सीजन के बाद सबसे कम है जो 29.0 मिलियन गांठ था। लेकिन सुस्त निर्यात और सुस्त घरेलू मांग से बढ़त सीमित रह सकती है। एमसीएक्स पर कॉटन (जून) की कीमतों के 60000 -63000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है जबकि कपास (अप्रैल 24) वायदा की कीमतों के 1560-1630 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में घटती आपूर्ति के कारण कॉटनसीडऑयलकेक (जून) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। कपास के उत्पादन में गिरावट से कपास के बीज के उत्पादन में भी कमी आने की संभावना है। कॉटनसीडऑयलकेक खली की कीमतें 2500-2900 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

वर्ष 2023 में मॉनसून के शुष्क दौर की बढ़ती संभावनाओं के कारण ग्वारसीड (जून) वायदा के तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। शुष्क मानसून से वर्ष 2023 में ग्वारसीड की बुवाई की प्रगति और उपज पर सीधे प्रभाव पड़ने की संभावना है। लेकिन किसानों के पास भारी स्टॉक होने और कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी के कारण ग्वारगम के कमजोर निर्यात से ग्वार में बढ़त सीमित रहने की संभावना है। ग्वारसीड की कीमतें निकट भविष्य में 5400-6000/6200 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि ग्वारगम की कीमतें 10500-12500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

मेंथा ऑयल वायदा (मई) की कीमतों में मिला-जुला रुझान रहने की संभावना है क्योंकि बाजार में घटती आपूर्ति के मद्देनजर जल्द ही शॉर्ट कवरींग की उम्मीद है। लेकिन भारत से मेन्थॉल के निर्यात में गिरावट की खबरों से लाभ पर रोक लगेगी। भारत ने अप्रैल-22-फरवरी-23 की समयावधि के दौरान लगभग 11887 टन मेन्थॉल का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 18386 टन निर्यात हुआ था। इसके अलावा, बुवाई में सुधार से भी कीमतों पर असर पड़ेगा। मेंथा ऑयल की कीमतों के 945-1000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

जुलाई-अगस्त में मौसम की बढ़ती चिंताओं के कारण अरंडी वायदा (जून) की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार होने की उम्मीद है। लेकिन अरंडी तेल के अधिक उत्पादन और सीमित निर्यात मांग से कीमतों पर दबाव रहेगा। वर्ष 2023 में कुल उत्पादन 18.82 लाख टन होने का अनुमान है जो साल-दर-साल 16% अधिक है। अरंडी (जून) वायदा की कीमतों को 5700 के स्तर पर सपोर्ट बने रहने की संभावना है और निकट अवधि में 6400 के स्तर पर रैजिस्टेंस रह सकता है।

### सर्पफा

पिछले हफ्ते सोने की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहीं, जबकि चांदी की कीमतों में एक दिन के कारोबार में 78120 के उच्च स्तर से 73045 तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर सूचकांक की मजबूती के कारण कीमती धातुओं की बिकवाली हुई। चांदी की कीमतों में गिरावट में चीन में कमजोर आर्थिक सुधार की चिंता भी जिम्मेदार रही है, जो औद्योगिक धातुओं का एक प्रमुख उपभोक्ता है। इसके अलावा, लगातार आर्थिक भय और अमेरिकी ऋण सीमा को लेकर गतिरोध ने भी बुलियन में अधिक गिरावट को बढ़ावा दिया। निवेशक चल रही अमेरिकी ऋण वार्ताओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ती पर रोक की उम्मीद कर रहे हैं। यद्यपि बाजार का अनुमान है कि फेड शायद दरों के मौजूदा स्तर पर लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन कारोबारियों को अभी भी दर बढ़ती के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शीर्ष सांसदों के बीच ऋण सीमा को लेकर बैठक अगले सप्ताह की शुरुआत तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जिससे बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। इससे कीमती धातुओं में कुछ मुनाफावसूली हुई है, जिससे कीमतों में गिरावट हुई है। बाजार वर्तमान समय में जून में फेड दरों को मौजूदा स्तर पर बरकरार रहने का 89.9% अनुमान लगा रहा है। तकनीकी मोर्चे पर, कोमेक्स में सोने की कीमतों को 2050 डॉलर के पास मजबूत रैजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और 2000 डॉलर के स्तर के पास सपोर्ट ले रहा है। 2000 डॉलर के स्तर से नीचे जाने पर कीमतों में 1980 डॉलर तक गिरावट हो सकती है। दूसरी ओर चांदी की कीमतें 22.650-25.300 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है। इस सप्ताह में सोने की कीमतों में बिकवाली का दबाव जारी रह सकता है, जहां इसे 59500 के पास सपोर्ट मिल सकता है और 62000 के पास रैजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। चांदी की कीमतें 70000-77000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतें 5600-6200 के दायरे में कारोबार कर सकती है। कीमतों पर दबाव बना रह सकता है क्योंकि टोस अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा जून में फिर से ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना से डॉलर को दो महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने में सफल हुआ है जबकि अमेरिकी ऋण डिफॉल्ट के कमजोर होते जोखिम की उम्मीदों से काउंटर को समर्थन मिल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी ने 31.4 डॉलर ट्रिलियन संघीय ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है। दूसरी तरफ, दो फेड नीति निर्माताओं ने कहा है कि अमेरिकी मुद्रास्फीति इतनी तेजी से कम नहीं हो रही है कि फेडरल को ब्याज दर वृद्धि अभियान पर रोक लगाने की अनुमति मिल सके। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक चीन में ब्लू-चिप शेंयरों का भाव, देश के औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री में वृद्धि के पूर्वानुमान के बाद फिसल गया, जो दर्शाता है कि आर्थिक सुधार की गति कम हो रही है। इस कारण तेल की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। एक अन्य कारक, जो तेल की मांग को कम कर सकता है और वह यह है कि मेक्सिको में सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स के स्वामित्व वाली सलीना क्रूज रिफाइनरी में आग लग गई है। संयुक्त संघटन डेटा इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब से कच्चे तेल का निर्यात पिछले महीने की तुलना में मार्च में लगभग 1% बढ़कर 7.52 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया। नेचुरल गैस (मई) की कीमतें 205-230 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अमेरिकी नेचुरल गैस भंडारण पिछले हफ्ते 99 बिलियन क्यूबिक फीट बढ़ गया, जो अनुमान से कम है जिससे बाजार के सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला। आगे भी भंडार कम होने और मांग अधिक होने की संभावना है। लेकिन भंडार में नवीनतम वृद्धि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमिगत भंडार में कुल गैस 2.24 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हो गया है, जो एक साल पहले के स्तर से 30.3% अधिक है।



## बेस मेटल

वैश्विक मंदी के बढ़ते डर, शीर्ष उपभोक्ता चीन में सुस्त मांग और आपूर्ति में सुधार से बाजार पर दबाव बढ़ने के कारण बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। एक मजबूत डॉलर के कारण कमोडिटीज की मांग में कमी हो सकती है। डॉलर को फेडरल रिजर्व के नीति निर्माताओं की आक्रामक टिप्पणी से अधिक बढ़ावा मिला है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि मुद्रास्फीति इतनी तेजी से कम नहीं हो रही है कि फेड को दर वृद्धि को रोकने की अनुमति मिल सके। शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में, औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री पिछले महीने की अपेक्षा धीमी हो गई, और व्यापक वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है और औद्योगिक धातुओं की मांग में गिरावट हुई है। तांबे की कीमतें 705-740 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एलएमई-पंजीकृत गोदामों में तांबे का स्टॉक जनवरी की शुरुआत से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जिंक की कीमतें 210-232 के दायरे में कारोबार कर सकती है। विश्लेषकों के अनुसार रिफाईंड जिंक की कीमतों में 2025 तक गिरावट का रूझान रहने की उम्मीद है, क्योंकि कमजोर मांग की तुलना में उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है। इंटरनेशनल लेड और जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार मार्च में वैश्विक जिंक बाजार का सरप्लस 26,700 टन तक बढ़ गया, जबकि वैश्विक स्तर पर लेड बाजार में लेड की कमी बढ़कर 21,000 टन हो गया। लेड की कीमतें 177-186 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्युमीनियम की कीमतें 200-216 के दायरे में कारोबार कर सकती है। धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच हाल के सप्ताहों में यूरोप और शीर्ष उपभोक्ता चीन में एल्युमीनियम की मांग में गिरावट आई है, जिससे कीमतों में अधिक गिरावट का जोखिम बढ़ गया है। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग (जून) की कीमतें नरमी के रूझान के साथ 45000-47500 के दायरे में कारोबार कर सकती है। वैश्विक मांग में कमी, सुदूर-पूर्वी एशिया और रूस से सस्ते आयात के प्रवाह के संयुक्त दबाव के कारण स्टील की कीमतों में गिरावट हो सकती है।

## जीरा.....जायके के साथ मुनाफा

जीरा न केवल अपने छौंक के साथ एक जायकेदार एजेंट है बल्कि आजकल इसकी कीमत ने बाजार के कारोबारियों को मुनाफे के तडके से चौंका दिया है। वर्ष 2022 में जीरा सबसे अधिक आकर्षण के केन्द्र में रहा है जिसने अधिक निर्यात मांग और पूरे भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन कम होने से आपूर्ति की चिंताओं के कारण 103% से अधिक की जोरदार तेजी देखी गई। मौसम और राजनीतिक कारकों के कारण भारत और विदेश दोनों में आपूर्ति पाइपलाइन एक साल से खाली हैं।


2023 में भी जीरे ने धमाकेदार शुरुआत की है। भारत और अन्य प्रमुख जीरा उत्पादक देशों में आपूर्ति की निरंतर कमी के बीच जीरे की कीमतों में इस वर्ष के प्रारंभ से अब तक लगभग 60% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। 10 मई को कीमतें बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 49200 रुपये पर पहुंच गई।

### भारत में उत्पादन परिदृश्य

भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक देश है, जो कुल विश्व उत्पादन का लगभग 70% योगदान देता है। अन्य प्रमुख जीरा उत्पादक देश सीरिया (13%), तुर्की (5%), संयुक्त अरब अमीरात (3%) और ईरान हैं। देश के जीरा उत्पादन में गुजरात का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत है, इसके बाद पड़ोसी राज्य राजस्थान का स्थान है।

गुजरात सरकार के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2022-23 में जीरा उत्पादन 2021-22 के 221500 टन से 9.3% गिरकर 200,780 टन रहने का अनुमान है। बेमौसम बारिश के बाद, प्रमुख एपीएमसी में देश भर से जीरे की दैनिक आवक घटकर 25,000-30,000 बैग (1 बैग=55 किलोग्राम) रह गई, जो पिछले साल की आधी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेकहोल्डर्स ने इस साल फरवरी में जीरे के लिए एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार, जिसमें 2022-23 में जीरा का उत्पादन 3.84 लाख टन (प्रत्येक 55 किलोग्राम के 69.96 मिलियन बैग) होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल के 3.01 लाख टन से 28% अधिक है।

राजस्थान में लगभग 60 से 65 प्रतिशत फसल पहले ही आ चुकी है और गुजरात में लगभग 65 से 70 प्रतिशत फसल की आवक हो चुकी है। जीरे की फसल के अनुमानित 50 मिलियन बैग में से 28 से 30 मिलियन बैग की आवक पहले ही बाजार में हो चुकी है। कटाई के मौसम में दो बार हुई बेमौसम बारिश से जीरे की फसल बर्बाद हो गई। 70 लाख बैग की नियोजित आवक की तुलना में, पिछले वर्ष के 5 लाख बैग के कैरी-फॉरवर्ड स्टॉक के साथ स्टॉक को घटाकर 60-65 लाख बैग कर दिया जाएगा।



### जीरे की मांग

भारत जीरा का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। दुनिया भर में लगभग 100 से अधिक देशों में निर्यात होता है, जहां चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारतीय जीरा के प्रमुख खरीदार हैं। भारत से कुल निर्यात में जीरे का 60% से अधिक योगदान देता है। भारत अपने वार्षिक उत्पादन का लगभग 30% निर्यात करता है और वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण पिछले 7 वर्षों में भारत से जीरा निर्यात 14% सीएजीआर के साथ बढ़ा है।

लेकिन, अफगानिस्तान में जीरे की फसल पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है। इसके अलावा, सीरियाई जीरा व्यापारियों ने 20,000 से 30,000 टन के उत्पादन की भविष्यवाणी की है, जो पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक उत्पादन होगा, बशर्ते कि अगले महीने सीरिया में मौसम अनुकूल रहे।

घरों के साथ-साथ होटल और रेस्तरां उद्योग से बढ़ती मांग के चलते जीरा आने वाले दिनों में व्यापारियों और

स्रोत: भारतीय बागवानी बोर्ड

स्टॉकिस्टों के लिए पसंदीदा रहने की संभावना है। बाजार को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग में वृद्धि और सीरिया एवं तुर्की द्वारा कम आपूर्ति के कारण कीमतों में मजबूती बनी रहेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी जीरा की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिन्डिकेटेड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्तुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटी को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।